



JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED

Regd. Office : T-210J, Shahpur Jat, New Delhi - 110 049 (INDIA)
Fax : 0091-11-26498341, 26494708, Phone : 0091-11-26494519-24

CIN No. L74899DL1978PLC009181

Date: February 14th, 2019

To, The Department of Corporate Services- Listing Bombay Stock Exchange Ltd, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001	To, National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051
Scrip Code: 507789	Symbol: JAGSNPHARM

Subject: Submission of Certified True Copies of Publication of Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2018 pursuant to Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 33 (3) (d) read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Certified True Copies of publication of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2018, approved at the meeting of the Board of Directors of the company held on 13th February, 2019 at the registered office of the company.

Further, the publication was made in one English and Hindi Newspaper of Business Standard respectively.

Kindly take the above on record & oblige.

For JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED

R K Kapoor
Company Secretary cum Compliance Officer



APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN: L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 22.09.2017 calling upon the Borrowers **MR. PREM CHAND RAHILYA, MRS. BHAWNA RAHILYA AND MR. MADAN ARYA (GUARANTOR)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.9,04,174/- (Rupees Nine Lakhs Four Thousand One Hundred Seventy Four Only)** against Loan Account No. **HHLDCP00208718** as on **22.09.2017** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **11.02.2019**.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.9,04,174/- (Rupees Nine Lakhs Four Thousand One Hundred Seventy Four Only)** as on **22.09.2017** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property	
PLOT NO. D - 15/7, GROUND FLOOR, DLF ANKUR VIHAR COMPRISING ONE ONE DRAWING/DINING ROOM, ONE BED ROOM, ONE TOILET AND ONE KITCHEN HAVING TOTAL AREA OF PLOT 30.12 SQUARE METERS AND COVERED AREA OF 25 SQUARE METERS WITHOUT ROOF RIGHTS	
SITUATED IN HADBAST GRAM LONI, PARGANA LONI, TEHSIL AND DISTRICT GHAZIABAD - 201001, UTTAR PRADESH.	
The said property is bounded as under:	
EAST : PLOT NO. D - 15/8	WEST : PLOT NO. D - 15/6
NORTH : 9 METERS WIDE ROAD	SOUTH : PLOT NO. D - 14/19
Sd/- Authorised Officer	
Date : 11.02.2019	
Place: GHAZIABAD INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED	

APPENDIX IV
[See rule 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas
The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN: L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated **15.12.2017** calling upon the Borrowers **MR. PANKAJ KUMAR JHA, MRS. AMRITA JHA AND MR. VISHNU KANT JHA** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.18,97,261/- (Rupees Eighteen Lakhs Ninety Seven Thousand Two Hundred Sixty One Only)** against Loan Account No. **HHLDCP00261091** as on **14.12.2017** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **11.02.2019**.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount of **Rs.18,97,261/- (Rupees Eighteen Lakhs Ninety Seven Thousand Two Hundred Sixty One Only)** as on **14.12.2017** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property	
M.I.G. FLAT NO. FF - 2, 1ST FLOOR (BACK SIDE), WITHOUT ROOF RIGHTS, COMPRISING OF 1 DRAWING/DINING ROOM, 2 BED ROOMS, 2 TOILETS, 1 KITCHEN AND BALCONY, HAVING TOTAL COVERED AREA OF 700 SQUARE FEET i.e. 65.03 SQUARE METERS, SITUATED ON RESIDENTIAL PLOT NO. C - 1/20, HAVING AREA OF 209 SQUARE METERS IN D.L.F. ANKUR VIHAR, HADBAST GRAM SADULLABAD, PARGANA AND TEHSIL LONI, DISTRICT GHAZIABAD. THE SAID FLAT IS SITUATED ON 3 STOREYED BUILDING.	
PLOT NO. C - 1/20 IS BOUNDED AS FOLLOWS:	
EAST : PLOT NO. C - 1/21	WEST : PLOT NO. C - 1/19
NORTH : PLOT NO. M.M 98	SOUTH : ROAD 12 METERS WIDE
Sd/- Authorised Officer	
Date : 11.02.2019	
Place: GHAZIABAD INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED	

IDBI Bank Ltd.
1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extn., New Delhi -110055 Ph: 011-66083101-12
CIN: L65190MH2004GO148838

M/s Evollab Technologies Pvt. Ltd. - 410, 4th Floor, Bestech Cyber Park, NH-8, Narsingpur, Gurugram, Haryana - 122004
Inclusion of M/s Evollab Technologies Pvt. Ltd. In CIBIL / CICs list of wilful defaulters

Please refer to the Master Circular on Wilful Defaulters (RBI Circular) issued by RBI and the Show Cause Notice No. IDBI/NMG/Evollab/576/2018-19 dated 30.06.2018 issued by the Bank calling for your submissions. The Show Cause Notice was returned undelivered, accordingly it was published in Newspaper on 20.07.2018. After careful examination of the above, the Identification Committee constituted in accordance with RBI circular for examining incidence of wilful default issued an order recording the fact of your wilful default which was reviewed and confirmed by another committee (Review Committee) of the Bank constituted in accordance with RBI circular at its meeting held on 26.11.2018.

Based on the above, we hereby inform you that the Bank has taken a decision to declare you as a wilful defaulter in accordance with RBI Circular and report your name to all Credit Information Companies and / or RBI.

Please note that the above action is without prejudice to the recovery actions and civil / criminal actions, both joint and several, pending or that may be initiated by the Bank against you.

Sd/-
Authorised Signatory,
IDBI Bank Ltd.

Date : 14.02.2019
Place : Delhi

LARK TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L34102UP1987PLC009222

Registered Office: C-273, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh - 201301
Tel. : 011-22159466 Website: www.larktrading.in, Email: larktradingfinance@gmail.com

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended December 31, 2018
(Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

Particulars	Quarter Ended			Year to date		Previous Year Ended
	31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Total income from operations	11.79	17.32	18.36	47.47	53.50	74.13
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.74	(14.09)	7.33	(1.93)	40.55	35.15
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.78)	(14.09)	7.33	(13.16)	40.55	35.15
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(6.78)	(14.09)	7.33	(13.16)	40.55	25.87
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6.78)	(14.09)	7.33	(13.16)	40.55	25.87
Equity Share Capital	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	-	168.66
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:-						
1. Basic	(0.13)	(0.27)	0.14	(0.25)	0.77	0.49
2. Diluted	(0.13)	(0.27)	0.14	(0.25)	0.77	0.49

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange www.mse.in and on the website of the Company at www.larktrading.in.

For Lark Trading and Finance Limited
Sd/-
Sumit Tayal
Whole Time Director
DIN: 06598044

Date: 12.02.2019
Place: Noida

Ansal Housing Limited
An ISO 9001:2015 Company
(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)
Regd. Office : 606, 6th Floor, Indra Prakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Head Office : 2F-AHCL, 2nd Floor, Ansal Plaza, Sector-1, Vaisali, Ghaziabad, U.P. - 201010
E-mail : ah@ansals.com Website : www.ansals.com CIN : L45201DL1983PLC016821

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2018
(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Quarter Ended		Corresponding Quarter Ended in the Previous Year
		31.12.2018	31.12.2018	
		(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total Income from Operations (Net)	5,161.39	14,023.88	5,050.53
2.	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (before Exceptional / Extraordinary items)	(802.85)	(1,899.46)	(1,188.06)
3.	Net Profit (+) / Loss (-) for the period before tax (after Exceptional / Extraordinary items)	(802.85)	(1,899.46)	(1,188.06)
4.	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax (after Exceptional / Extraordinary items)	(562.89)	(800.76)	(780.85)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(549.05)	(759.23)	(771.63)
6.	Paid-up Equity share capital (Face value of Rs.10/- each)	5,938.58	5,938.58	5,938.58
7.	Earning Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)			
	Basic and diluted EPS (In Rs.)	(0.92)	(1.28)	(1.30)

Notes:
1. The financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016.
2. Ind AS 115 "Revenue from contracts with customers", mandatory for reporting period beginning on or after April 1, 2018, which replaces the existing revenue recognition policy. The application of Ind AS 115 has impacted the Company's accounting for recognition of revenue from real estate projects. The company has applied the modified retrospective approach, and in respect of the contracts not completed as of April 1, 2018 (being the transition date), the figure for the previous year has been restated / reclassified as per the requirement of Ind AS 115. Due to the application of Ind AS 115 for the quarter and nine months ended December 31, 2018, revenue from operations is lower by Rs. 1004.04 lakh and Rs. 1455.20 lakh respectively and Net profit after tax is lower by Rs. 80.19 lakh and Rs. 95.44 lakh respectively, vis-a-vis the amounts if the standards replaced continued to be applicable. Accordingly, the basic and diluted EPS for the quarter and nine months ended December 31, 2018 is lower by Rs.0.14 and Rs.0.16 per share respectively. Under the modified retrospective approach, the comparative figures for the previous period are not required to be restated and hence are not comparable.
3. The company has disposed off all the shares held by it in its wholly owned subsidiary viz. Sonu Buildwell Private Limited on 25th January 2019.
4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for Quarter and Nine months ended 31st December, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for Quarter and Nine months ended 31st December, 2018 are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com) and www.nseindia.com and on the Company's Website (www.ansals.com).
5. W.e.f. 18th December 2018, the name of the company was changed from "Ansal Housing and Construction Limited" to "Ansal Housing Limited".
6. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th February, 2019.

For and on behalf of the Board
Sd/-
(DEEPAK ANSAL)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN : 00047971

Place : New Delhi
Dated : 13th February, 2019

JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED
CIN: L74899DL1978PLC009181
Registered Office : T-210 J, Shahpur Jat, New Delhi- 110 049 Phone : 011-46181100 & 46109900,
Fax : 01126493841, Website: www.jagsonpal.com, email: cs@jagsonpal.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended December 31st, 2018
(Amount in Lakhs unless otherwise indicated)

Particulars	Quarter ended	Year to date Figures for	Corresponding 3
	December 31, 2018	current period ended December 31, 2018	months ended in the previous year December 31, 2017
Total income from operations	4189.45	12842.34	3805.65
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	214.43	526.58	-229.26
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	214.43	526.58	-229.26
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	174.43	424.15	-224.7
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	174.43	424.15	-224.7
Equity Share Capital	1309.9	1309.9	1309.9
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs.5/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
Basic :	0.67	1.62	-0.86
Diluted:	0.67	1.62	-0.86

Notes:
1) The above Standalone Un-Audited financial results for the quarter ended 31st December, 2018 was reviewed by the Audit Committee and approved by the board of directors at their respective meeting held on 13th February, 2019.
2) In line with the provisions of IND AS 18, the Company operates in one reportable business segment i.e. 'Pharmaceuticals'.
3) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nse.com) and the company www.jagsonpal.com.

By Order of the Board
Jagsopal Pharmaceuticals Limited
Sd/-
Rajpal Singh Kochhar
Managing Director
DIN No 00059492

Date : February 13, 2019
Place : New Delhi

STATE BANK OF INDIA BRANCH : JEWAR (GAUTAMBUDHNAGAR) U.P.

Possession Notice (For Immovable Property Rule 8(1))

Whereas the undersigned being the authorized officer of the **State Bank of India** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice calling upon the borrower/Guarantor as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of power conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the property will be subject to the charge of the **STATE BANK OF INDIA, JEWAR (GAUTAMBUDHNAGAR) BRANCH** for an amount detail below and interest & cost thereon. **The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.**

Name of Borrower / Guarantor	Description of Immovable Property	Date of Demand Notice	Amount as per Demand Notice
Borrower: Mohammad Riyaz S/o Abdul Rashid H.No. 36, Moh. Khattiawan Jewar G.B Nagar (U.P.) Guarantor: Smt. Farjana W/o Mohd. Riyaz, Moh. Khattiawan Jewar	EM of All the part and parcel of the property which is situated at Moh. Khattiawan Jewar and total area of the residential house is 40.80 Sq. mtr. which is in the name of Mohd. Riyaz S/o Abdul Rashid Moh. Khattiawan Jewar (Gautambudh Nagar UP) Property Bounded and Butted as under: East: Plot of Aas Mohammad, West: Road Gali 7 feet wide, North: Road 10 feet wide, South: House of Naseem ulla	17.04.2018 Date of Possession 08.02.2019	Rs. 1,69,414/- including interest up to 17.04.2018 + interest & other charges w.e.f. 17.04.2018

Date: 13.02.2019 **Place- JEWAR (G.B. Nagar)** **Authorized Officer**

IDFC FIRST Bank Limited
(Formerly known as IDFC Bank Limited)
Registered Office: One Indiabulls Centre, Tower 2A & 2B, 10th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, (West), Mumbai - 400 013

(Notice Under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002)

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) The Loans of the below mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA as per the RBI Guidelines. Amounts due by them to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sl No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers	Outstanding as per 13(2) notice	Notice date	Details of secured asset
1	15211109	Loan Against Property	1. Vijay Singh 2. Savita Omprakash Singh Khatana	Rs. 16,09,287.86	29/01/2019	1. Entire Upper Ground Floor without roof rights, built on property No.196, measuring 70 sq.yds out of Khasra No. 14 (Lal Dora) situated in the abadi of Lal Dora Village Kotla, Mayur Vihar, Phase-1, ILLAQA Shahdara, Delhi. 2. First Floor without roof rights, built on property No. 196, measuring 70 sq.yds. out of Khasra No. 14 (Lal Dora) situated in the abadi of Lal Dora Village Kotla, Mayur Vihar, Phase -1, ILLAQA Shahdara, Delhi.

You are hereby called upon to pay the amounts due to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc., within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings U/s 13(4) and Sec.14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC First Bank Limited (Formerly known as IDFC Bank Limited) Further you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring the said secured asset either by way of sale/lease or otherwise.

Sd/-
Authorised Officer
IDFC First Bank Ltd
Formerly Known as IDFC Bank Ltd

Date : 14.02.2019
Place : Delhi

SPL INDUSTRIES LTD.
Regd. Off: C-2/54, Rajasthali Apartments, 5th Floor, Pitampura, Delhi-110034
Email: cs@splimited.com | CIN: L74899DL1991PLC062744

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2018

STATEMENT OF STANDALONE/UN-AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31/12/2018 Single Segment Reporting (Figures Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	Quarter Ended		Nine months Ended		Year Ended	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.03.2018
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations (Net)	4,009.00	2,859.20	11,792.89	14,117.18	17,274.88	
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (Before exceptional items)	666.92	740.29	2,231.96	(25.45)	538.72	
Net Profit / (Loss) from ordinary activities (After Exceptional Items)	666.92	740.19	2,231.96	(28.50)	552.03	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary Items)	666.92	740.19	2,231.96	(28.50)	552.03	
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) after Tax and Other Comprehensive Income after Tax)	666.92	740.19	2,231.96	(28.50)	552.03	
Equity Share Capital	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year)	-	-	-	-	-	
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Re.10/- each)	-	-	-	-	-	
Basic:	2.30	2.55	7.70	(0.10)	1.90	
Diluted:	2.30	2.55	7.70	(0.10)	1.90	
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Re.10/- each)	-	-	-	-	-	
Basic:	2.30	2.55	7.70	(0.10)	1.90	
Diluted:	2.30	2.55	7.70	(0.10)	1.90	

NOTES:
1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 13th February, 2019. The Statutory Auditors have audited the results for the Quarter/ Nine months ended 31st December, 2018.
2 This Statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS), Prescribed under section 133 of the companies act 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
3 The Meeting of Board of Directors was held on 13th February, 2019 at the schedule time and the above results were approved.
4 As per IND-AS 108 "Operating Segment", the company has disclosed the segment information only as a party of the standalone financial results.
5 No complaint was received during the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2018 and the same has been resolved.
6 Effective April 1, 2018, the Company adopted IND-AS 115 - Revenue from Contracts with Customers. The

Avonmore Capital & Management Services Limited

Regd. Off.: F-33/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020
Tel.: 011-26385056, Fax: 011-43500787
Website: www.avonmorecapital.in, E-mail ID: secretarial@almondz.com

Extract of consolidated unaudited financial results for Quarter / Nine Months ended 31 December 2018

Table with 7 columns: Particulars, Quarter ended (31 Dec 2018, 30 Sep 2018, 31 Dec 2017), Nine Months ended (31 Dec 2018, 31 Dec 2017), and Year ended (31 Mar 2018). Rows include Total income from operations, Net profit, Reserves, etc.

Table with 7 columns: Particulars, Quarter ended (31 Dec 2018, 30 Sep 2018, 31 Dec 2017), Nine Months ended (31 Dec 2018, 31 Dec 2017), and Year ended (31 Mar 2018). Rows include Net Income from Operations, Profit/Loss, etc.

For and on behalf of the Board of Avonmore Capital & Management Services Ltd. Ashok Kumar Gupta, Managing Director

Place: New Delhi Date: 13 February 2019

एस्पीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्या: सी-2/54, 5वीं मंजिल, राजस्थली अपार्टमेंट्स, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034
Email: cs@splimited.com CIN: L74899DL1991PLC062744

31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही / नौ माह के लिए अंशकृत वित्तीय परिणाम

Table with 7 columns: विवरण, समाप्त तिमाही (31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2018), समाप्त तिमाही (31.12.2017, 31.03.2018), अंशकृत (अनकेशित, अंशकेशित). Rows include प्रचालन से कुल आय, साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ, etc.

नोट: 1. उक्त वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 फरवरी, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. यह विवरण कंपनी का अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनी का (भारतीय लेखा मानक), नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू विचारों के लिए अन्य मान्यताप्राप्त लेखा कर्तव्यों के अनुपालन में तैयार किया गया है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: वन इण्डियाबुल्स सेंटर, टॉवर-2ए एवं 2बी, 10वीं मंजिल, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पर्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 013

Table with 7 columns: क्र. सं., अग्र खता, अग्र का प्रकार, कर्मचारियों के नाम, 13(2) सूचना के अनुसार बकाया, सूचना की तिथि, प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण. Rows include 1. 15211109, 2. 15132607.

आपको एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर सारणी में उल्लेखित रकम साथ में उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधकीय दर पर उस ब्याज तथा अन्य लागत, शुल्कों इत्यादि का भुगतान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को करना होगा, अन्यथा अगोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) की बकाया राशि की वसूली के लिए ऊपर उल्लेखित गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

तारीख: 14.02.2019 स्थान: दिल्ली

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: वन इण्डियाबुल्स सेंटर, टॉवर-2ए एवं 2बी, 10वीं मंजिल, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पर्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 013

Table with 7 columns: क्र. सं., अग्र खता, अग्र का प्रकार, कर्मचारियों के नाम, 13(2) सूचना के अनुसार बकाया, सूचना की तिथि, प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण. Rows include 1. 7550005, 2. 2577560.

आपको एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर सारणी में उल्लेखित रकम साथ में उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधकीय दर पर उस ब्याज तथा अन्य लागत, शुल्कों इत्यादि का भुगतान आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) को करना होगा, अन्यथा अगोहस्ताक्षरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) की बकाया राशि की वसूली के लिए ऊपर उल्लेखित गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

तारीख: 14.02.2019 स्थान: दिल्ली

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 14 फरवरी 2019 गुनवार

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कब्जा सूचना
(नियम 8(1) देखें) (अवल संपत्ति के लिए)
वित्तीय परिपूरणियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि., इंडियाबुल्स एआरसी-11, ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टी हैं, के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उत्तर प्रदान करने के लिए 1,20,81,864.00 (रुपए एक करोड़ बीस लाख इक्कासी हजार आठ सौ बीस चार केवल) की राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी मेसर्स इवासी मोटानी, सुश्री मीना मोटानी, श्री दिवाकर मोटानी, मेसर्स जय शंभू इलेक्ट्रॉनिक्स को बुलाते हुए 07.08.2018 को मांग सूचना जारी की थी।

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
कब्जा सूचना
(नियम 8(1) देखें) (अवल संपत्ति के लिए)
वित्तीय परिपूरणियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि., इंडियाबुल्स एआरसी-11, ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टी हैं, के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उत्तर प्रदान करने के लिए 20,06,11,147.00 (रुपए बीस करोड़ छह लाख ग्यारह हजार एक सौ सैंनालीस केवल) की राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी मेसर्स एमजी इन्फोटेक प्रा. लि. को बुलाते हुए 28.02.2018 को मांग सूचना जारी की थी।

Govt. of India, Ministry of Finance
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL COURT OF APPEALS
R.P. No. 138/2017/CTC (Arising out of OA No. 307 of 2015)
Notice of Demand to the Certificate Debtors
International Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd., A-406, Millennium Plaza, Sector-27, Gurgaon, Haryana - 122002

जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: टी-210 जे, शाहपुर जगत, नई दिल्ली-110 049, दूरभाष: 011-46181100 & 46109900, फैक्स: 01126493841 वेबसाइट: www.jagsonpal.com, ई-मेल: cs@jagsonpal.com
31.12.2018 को समाप्त तिमाही के उद्घाटित अंशकृत वित्तीय परिणाम

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: वन इण्डियाबुल्स सेंटर, टॉवर-2ए एवं 2बी, 10वीं मंजिल, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पर्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 013
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) की बकाया राशि की वसूली के लिए ऊपर उल्लेखित गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय: वन इण्डियाबुल्स सेंटर, टॉवर-2ए एवं 2बी, 10वीं मंजिल, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पर्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 013
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में ज्ञात) की बकाया राशि की वसूली के लिए ऊपर उल्लेखित गिरवी पर रखी गई सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
प्रथम तल, वीडियोकॉन टॉवर, ई-1, झंडेवाला एक्सटेशन, नई दिल्ली -110055
फोन: 011-66083101-12
मेसर्स एवोलेब टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड- 410, चौथी मंजिल, बरेस्टेट साइबर पार्क, एनएच-8, नरसिंगपुर, गुरुग्राम, हरियाणा-122004
इरादतन चूककर्ताओं की सिबिल/सीआईसी की सूची में मेसर्स एवोलेब टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का समावेशन

लार्क ट्रेडिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: सी-273, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
फोन: 011-22159466 ई-मेल: www.larktrading.in, वेबसाइट: larktradingfinance@gmail.com
31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही हेतु पृथक्कृत अलेखापरिहित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

जगसनपाल फर्मासिटिकल्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: टी-210 जे, शाहपुर जगत, नई दिल्ली-110 049, दूरभाष: 011-46181100 & 46109900, फैक्स: 01126493841 वेबसाइट: www.jagsonpal.com, ई-मेल: cs@jagsonpal.com
31.12.2018 को समाप्त तिमाही के उद्घाटित अंशकृत वित्तीय परिणाम

ansal HOUSING
अंसल हाउसिंग लिमिटेड
पंजी कार्यालय: 606 छठी मंजिल इंदर प्रकाश 21 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली-110001
मुख्य कार्यालय: 2एफ-एचसीएल, दूसरी मंजिल, अंसल प्लाजा, सेक्टर-1, वैशाली गण्डियाबाद, ग.प. 201010
31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही / नौ माह के लिए स्टैंडलोन अंशकृत वित्तीय परिणामों का विवरण का सार